

सड़क सुरक्षा संबंधी जानकारी

जब आपके बच्चे स्कूल से आ-जा रहे होते हैं, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है।

सुरक्षित रूप से पैदल चलना

फुटपॉथ और कार पार्क में पैदल चलते समय तथा सड़क पार करते समय, हमेशा अपने बच्चों का हाथ पकड़ कर रखें – कम से कम जब तक वे 8 साल के न हो जाएँ।

जब आपके बच्चों की आयु 8 से 10 साल के बीच हो, तो जब वे यातायात के करीब हों और सड़क पार कर रहे हों तो बहुत करीब से उनपर नज़र बनाए रखें।

जब आप अपने बच्चों को उनके 10 साल की आयु से अधिक के होने पर अपने आप से पैदल स्कूल आने-जाने का फैसला लें, तो मिलकर यात्रा करने की योजना बनाएँ। निम्नलिखित के माध्यम से एक सुरक्षित पैदल यात्री बनने का अभ्यास करें:

- फुटपॉथ के बायीं ओर चलना
- ड्राइववे से आने-जाने वाली गाड़ियों से अवगत रहना
- मोबाइल उपकरणों या अन्य लोगों द्वारा ध्यान भंग न होना
- वर्षा के मौसम में घर वापिस आने के सुरक्षित और वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग करना
- पैदल यात्रा करने वाले दूसरे लोगों का सम्मान करना।

रुकें! फुटपॉथ से एक कदम पीछें जाएँ।

देखें! लगातार दोनों ओर देखें।

सुनें! आने वाले यातायात की आवाज़ को।

सोचें! कि क्या सड़क पार करना सुरक्षित है?

अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वे:

- यदि उपलब्ध हो तो सड़क पार करने के लिए हमेशा किसी सुरक्षित स्थान का प्रयोग करें, जैसे कि पैदल यात्रा करने वालों के लिए क्रॉसिंग, ट्रैफिक लाइट्स या स्कूल क्रॉसिंग
- सड़क और ड्राइववे पार करने से पहले मुड़ने वाली गाड़ियों पर नज़र रखें
- कभी ऐसा न मानें कि ड्राइवर उन्हें देख सकता है या उनके लिए गाड़ी रोक लेगा
- ड्राइवर की आँखों में देखें ताकि उन्हें यह पता चल सके कि ड्राइवर ने उन्हें देख लिया है
- सड़क या ड्राइववे पार करने से पहले इस बात की प्रतीक्षा करें कि ड्राइवर ने अपनी गाड़ी पूरी तरह से रोक दी है।



और अधिक सहायता के लिए

विभाग का सड़क सुरक्षा शिक्षा कार्यक्रम देखें:

<https://education.nsw.gov.au/road-safety-education> या

<https://education.nsw.gov.au> और सड़क सुरक्षा से संबंधित शिक्षा की खोज करें।